



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1012 राँची, सोमवार,

5 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

8 अक्टूबर, 2018

आदेश संख्या-5/आरोप-1-106/2018 का.-7541-- पुलिस अधीक्षक, सी०बी०आई०, ए०सी०बी०, धनबाद के पत्रांक-5167, दिनांक 3 अगस्त, 2018 द्वारा सूचित किया गया है कि देवघर भूमि घोटाला में आरोपी श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर, सम्प्रति-अवर सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड ने दिनांक 10 अगस्त, 2018 को माननीय विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० धनबाद के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 10 अगस्त, 2018 को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

2. अतः श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 10 अगस्त, 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री चौधरी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देंगे।

4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
